

कां है कि जो अंग्रेजों के युनिट्स हैं उनमें ज्यादा काम होता है और जो इंडियन लैंग्विज के युनिट्स हैं उन में कम काम होता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, जाहिर है, कोई देख सकता है कि ज्यादा काम है। वह हलके हलके कम होता जाये, वह दूसरी बात है।

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमामें

*७. श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बीच पृथक् पृथक् कितने मील लम्बी सीमा है ?

t [BORDERS BETWEEN INDIA AND PAKISTAN

*7, SHRI V. M. CHOKDIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the mileage of the borders between India and East Pakistan and "West Pakistan separately?]

बैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विनेश सिंह) : भारत-पूर्व पाकिस्तान और भारत-पश्चिम पाकिस्तान के बीच सीमा की लम्बाई क्रमशः २५११.०० और १२७१.५० मील के लगभग है।

tTHB DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EKTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): The mileage of the borders between India—East Pakistan and India—West Pakistan 19 f.pproximatt.i> 2519:00 and 1271:50 jmiles respectively.]

श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त सीमा में से कितनी सीमा दोनों शासनों द्वारा स्वीकार कर ली गई ?

श्री विनेश सिंह : स्वीकार तो करीब करीब सब है, लेकिन कितनी सीमा पर निशान लगाया जा चुका है वह लगभग २२६१.८ मील है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : यह कितनी पूर्वा पाकिस्तान और भारत के बीच में है और कितनी पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच में है ?

श्री विनेश सिंह : १६५८.५ और ७०३.३ मील।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अपनी सारी सीमा के ऊपर कितनी चैक पोस्ट्स भारत ने स्मॉलिंग रोकने के लिये और रक्षा की दृष्टि से रख रखी हैं ?

श्री विनेश सिंह : इसके बताने के लिये समय चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि राजस्थान की जो सीमा पड़ती है उसमें टीला का पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में है और पूर्वी हिस्सा हिन्दुस्तान में है ? क्या इस तरह की सीमाएं भी अभी तक मौजूद हैं ?

श्री विनेश सिंह : जहां से सीमा जाती है कुछ जगहें पूर्व और पश्चिम पड़ जाती हैं, अक्सर ऐसा हो ही जाता है।

श्री जयनारायण व्यास : क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि कभी कभी कुशां तो हिन्दुस्तान में रह जाता है और उसकी रस्सी पाकिस्तान में चली जाती है ? यह जो सीमाओं में गड़बड़ी है, क्या इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जायगी ?

श्री विनेश सिंह : सरहद पर जो कुएं हैं, उनमें जाहिर है कि ऐसी बात होगी।

[] English translation.

श्री सभापति : अभी अभी ऐसा हों जाता है ।

श्री दिनेश सिंह : जी हाँ ।

**EXPULSION OF INDIAN JOURNALISTS
FROM NEPAL**

*8. SHRI V. M. CHORDIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during last few months some Indian journalists have been expelled from Nepal by the Nepalese Government; if so, what are the details thereof;

(b) what has been the report of our Embassy in Nepal in this respect; and

(c) what action has been taken by the Indian Government in this connection?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): (a) Yes, Sir. Two Indian journalists were expelled from Nepal by the Nepalese Government—Shri V. R. Mohinder, Representative of the 'Hindustan Times' on February 15, 1962 and Shri P. C. Tandon; Representative of the 'Times of India' on April 9, 1962.

(b) Our Embassy informed us that the Nepalese authorities regarded their reporting unsympathetic, incorrect and critical of the present regime in Nepal.

(c) No action was considered necessary.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने भी इस बात की जांच की अथवा नहीं कि उन रिपोर्टों द्वारा कुछ ऐसा प्रकाशन किया जा रहा था जैसा कि नेपाल सरकार ने आरोप लगाया है ?

श्री दिनेश सिंह : इसकी जांच करना मुश्किल है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा । एक सरकार, जहाँ कि ऐसे

लोग रहते हैं, अगर यह महसूस करती है कि उन का वहाँ रहना ठीक नहीं है, तो ऐसे मामले में हम बहुत कम बात कर सकते हैं ।

SHRI M. P. BHARGAVA: May I know whether the Nepalese Government had given any prior intimation to the Indian Embassy about the expulsion of these press correspondents from their country?

SHRI DINESH SINGH: They had informed the correspondents themselves.

SHRI RAJENDRA PRATAP-SINHA: May I know if the Government of India is aware that the foreign journalists and correspondents, particularly Indian correspondents, are working under very difficult conditions in Nepal and they are not permitted by the present regime there to function normally, to perform the functions of journalists?

SHRI JAWAHARLAL NEHRU: That is likely to happen, Sir.

SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA: What steps do the Government propose to take so that our journalists function there normally?

SHRI JAWAHARLAL NEHRU: None, Sir.

डेरा बाबा नानक में स्थित रावी के पुल का
दिया जाना

*९. श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या प्रधान मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर जिले के उत्तर-पश्चिम में स्थित डेरा बाबा नानक में रावी के पुल को, जिस के आधे हिस्से पर १९४७ से भारत का कब्जा था और रावी के दक्षिण की ओर पुल के साथ लगी डेरा बाबा नानक ग्राम

† [] English translation.